



Date:30.05.2022

To,

The Manager, BSE Limited Phirozejeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400001

Dear Sir/Madam,

Subject: Financial results of the quarter and financial year ended 31stMarch 2022-Newspaper Advertisement

Pursuant to Regulation 30 and 47 read with Part A of Schedule III of the SEBI (Listing Obligationsand Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, pleasefind enclosed the copies of the advertisement published in English (Financial Express) and regional (Jansatta) newspapers for the Financial Results of the quarter and financial year (audited) ended 31st March 2022, that were approved by the Board in its meeting held on 30th May 2022.

This is for your information and records.

For and on Behalf of Hardwyn India Limited

For Hardwyn India Limited

Rubaljeet Singh Sayalctor Managing Director DIN: 00280624 Quarter Quarter Corresponding ending on ended on Quarter ended 31.03.2022 31.12.2021 on 31.03.2021 tal Income from Operations 694.16 t Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or 46.91 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or 46.91 112.05 COCY 0.00 s) for the period after tax (after Exceptional and/or 42.36 107.50 59.61 inary items)

mprehensive income for the period (Comprising Profit / (Loss) 39-63
ieriod (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 63.15 1150 113 84 251,44 251,44 251.44 919.60 1.68 237 -0.04 4.28

Ness
The above is an outset of the detailed Quarterly Financial Results filled with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEE
Listing Chigations and other Outcome Regulations, 2013. The detailed Quarterly Financial Benuts are available
Listing Chigations (and the SEE Administration of the SEE A

यूजियम बैंक 🕥 Union Bank

### Branch Office: Nissing, Distt. Karnal

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY) [RULE 8(1)] Whereas, the undersigned being the authorized officer of the Union Bank of India under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Act 2002 and in sexercise of powers conferred under section 13(12) and with rule 3 of the Security Interest (Second) Act 2002 and in Rules, 2002 issued/published notices upon the borrowers to repay the amount mentioned in the notices within 60 days from the date of receipt of the said notices. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers/Mortgagory/Courantor in particular and the public in general that the undersigned has 1 skiner Physical Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the

property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rule on the dates mentioned against accounts. The borrowers/Mortgagors/Guarantorin particulars and the public in general is hereby cautioned no deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of the Julion Bank OT India for an amount mentioned herein below besides interest and othe charges/expenses against accounts.

Name of Account	Description of Property taken in Possession	Date and Amount of Demand Notice	Date of Taking Possession
M/s Mahinder Pal Naresh Kumar through its a proprietor Mr. Mahinder			26.05.2022 rest thereon.
Singh S/o Sh. Phool Singh, CC. 1. Mr. Mahinder Pal, New Grain Market,	Tehsil Nissing Distt. Kamal measu share of Killa no 15(7-11) having	ring 0K-06M i.e. 180 Sq Y khewat No 659, Rect I	ds being 6/151 No 148 as per

Mx Medinidor Pal, New Crain Medinidor Indian of 157-11 hospital production Pal, New Crain Medinidor Indian of 157-11 hospital production Pales No. 157-11 hospital Pales No. 157-11 hospital Pales No. 157-11 hospital Pales No. 157-158 hospital Pales No. 157-158 hospital Pales No. 157-158 hospital Pales No. 157-159 hosp

# SHIVALIK BIMETAL CONTROLS LIMITED EXTRACT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31<sup>st</sup> MARCH, 2022

					- 10	₹ in takhs, e:	(cept EPS)	
			Standalone		Consolidated			
SL. No.	Particulars	Quarter Ended 31.63.2022	Year Ended 31.03.2022	Quarter Ended 31.03.2021	Quarter Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2022	Quarter Ended 31.03.2021	
		Audited	Audited	Audried	Audited	Audited	Audited	
1 2	Total Income from operations  Net Profit for the period ( before Tax, Exceptional and /	9,084.23	32,943.43	6,802.74	9,084.23	32,943.43	6,802.74	
3	or Extraordinary items ) Net Profit for the period before Tax ( after Exceptional and	1,769.82	6,978.64	1,176.89	1,899.20	7,329.83	1,261.01	
4	/ or Extraordinary items ) Not Profit for the period after Tax/ after Exceptional and /	1,769.82	6,978.64	1,176.89	1,899.20	7,329.83	1,261.01	
5	or Extraordinary items ) Total Comprehensive Income for the period [ Comprising Profit for the period ( after tax ) and Other Comprehensive	1,327.09	5,197,60	856.98	1,446.21	5,511.22	932.87	
	Income (after tax.)  Equity share capital	1,340.41	5,202.22	847.51	1,460.70	5,517.01	923.90	
7	(Face Value of the Share ₹ 2/- Each) Other Equity (excluding Revaluation Reserves.)	768.06	768.06	768.06	768.06	768.06	768.06	
8	as per audited ibalance sheet of previous year Earnings Per Share( Face value of the share ₹ 2/- each )		17,950.40			18,391.74		
	(not annualised) a) Basic b) Diluted	3.49 3.49	13.55 13.55	2.21	3.80 3.80	14.37	2.40	

The Board of Directors of parent Company at their meeting had on 30° May, 2022 have recommended a final dividend @ 25% i.e., R.s. 0.50°-pt cyally share of the Sec value of Rs.2° each, salpet to the approval of the shareholders in the ensuing Annual Genneal Meeting, With this, the rectle dividend for the year (including Internal dividend of Rs. 10°) poper outputs have paid during the year (in Rs. 1) per pertons.

bove financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Director of the Company at their respect ng(s) field on 30° May, 2022. The Statutory Auditors of the Company have certed out Audit of the financial results for the year end Audit, 2022 and these expressed on unmodified report thereon.

For and on Behalf of Board of Directors

# CCL INTERNATIONAL LIMITED CIN1.26940DL1991PLC044529 REGD.OFF.: M-4, GUPTA TOWER, B 1/1, COMMERCIAL COMPLEX, AZADPUR, NEW-DELHI-110 033

				Standalone		(₹ In lakha
S.	Particulars		Quarter Ende	Year Ended		
No.	. ====	31.03.2022 (Audited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.03.2021	31.83.2022 (Audited)	
1.	Total income from operations	1,661.88	533.29	1,349.96	2,778.68	3,043.74
2,	Net Profit/ (loss) for the period (before Tax, exceptional and extraordinary items)	257.62	(78.30)	98.16	68.26	64.71
3.	Net Profit/ (loss) for the period before Tex (after exceptional and extraordinary items)	257.62	(78.30)	98.15	58.25	64.71
4	Net Profit/ (loss) for the period after Tex (after exceptional and extraordinary items)	250.23	(75.83)	77.88	58.91	47.74
5	Total Comprehensive Income for the partod (Comprising Profit/Loss) for the period (after text) and Other Comprehensive Income (after text)]	250.23	(75.83)	77.88	56.91	47,74
6	Paid up equity share capital (face value Rs. 10/- each)	1,919.26	1,919.26	1,919.26	1,919.26	1,919.26
7	Reserves (excluding revaluation reserve)				2,727.95	2,671.05
8	Basic and Diluted Earning Per Share (Rs.) (not annualized)					
	-EPS before exceptional item	1.30	(0.40)	0.40	0.30	0.25
	-EPS after exceptional tem	1.30	(0.40)	0.40	0.30	0.25

financialog.ep.a.in

- its:
  The above missile have been reviewed Audit committee at their meeting held on May 30, 2022 and thereather approv
  Board of Directors at their meeting held on May 30, 2022.
  The Pheniculineusla have been prepared in accordance with hird AS as preactibed under Section 133 of the Comp
  2013 result with reviewer table threaders and in airms of Regulation 33 of Securities and Eachange Board of Inc
  (Liking Dispations and Declosure Reculrements, 2015.
  The entire operation of the company relate to bee segments size Trading & Constitution. Hance, segment reporting
  AS 108 is made.
- As 10 is a made.

  This Company has considered hismail and certain external sources of Information Including economic forecasts and Industry report up to the date of approved of the financial reside in determining the impact of various elements of its financial islationers. This Company has used the principles or protection a highly Judgments, eclimited and season from an observed in the current estimates, the Company expects on Impairment in carrying values of Investments and other Assets of the company. This eventual outcome films of the pitch best plant performed by editioner from those estimated as on the date of approved or eventual outcome films of the pitch season shaded as on the date of approved or eventual outcome for limits of the pitch best plant perform for the distinct performance or the pitch performance of the pitch performs of the performance of the pitch performs of the pi
- these francial statements, use Longuay was Longuay to Seption 1.

  Figures for the previous year have been re-enranged wherever necessary, in line with the current period presentation.

  The above is an activate of the detailed formet of Annual Flaundel Results for the Quarter anded 31.03.2022 fleel with the Stock Exchanges under Requisitions 35 of the SEBI (Listing and Other Disobsrum Requisition repairs 1.015. The full formet of the self-trained liseauties are within the self-trained liseauties are within the self-trained liseauties. 2015. The full formet of the self-trained liseauties are within the self-trained liseauties are within the website of the Stock Exchange at www.braindis.com and on the website of the Company at www.braindis.com and on the website of the Stock Exchange at weak-hashind account and on the website of the Stock Exchange at www.braindis.com and on the website of the Stock Exchange at www.braindis.com and on the website of the Stock Exchange at www.braindis.com and on the website of the Stock Exchange at www.braindis.com and on the website of the Stock Exchange at www.braindis.com and on the website of the Stock Exchange at www.braindis.com and on the website of the Stock Exchange at www.braindis.com and on the website of the Stock Exchange at www.braindis.com and on the website of the Stock Exchange at www.braindis.com and on the website of the Stock Exchange at www.braindis.com and on the website of the Stock Exchange at www.braindis.com and on the website of the Stock Exchange at which are stocked and the Stock Exchange at which are stocked as the Stocked Exchange at which are stocked as the Stocked Exchange at the Stocked Excha

DIN: 01840481



Rule-8 (1) POSSESSION NOTICE (for Immovable Property)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the BANK OF BAROOA, Millergan Ludhiana, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 131(2) read with Rules 30 off the Security, Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices dated mentioned as below calling upon the borrower(s) (Curantor(s) to repay the amount mentioned in the Notice(s) being as Below within 60 days from the date of receipt of the said Notices. The borrower(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s) in particular and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under suit Section (4) of Section (13) of Act rad with rule 8 of the Security, Interest (Enforcement) Rules, 2002, on these dates as mentioned against below account. The parties concerned in particular and the public in general are hereby causioned not to deal with the property and any dealings with the property (les) will be subject to the charge of the Millergan) Ludhiana for an aggregate amount of as mentioned below in Hune interest thereon and costs, etc.

The borrower's attention is invited to prevision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name of the Sr. Borrower/Guarantor/ No Owner of Property	Description of the Immovable Property	Date of Demand Notice	Date of Possession	Amount Outstanding
1. Borrower/s:- M/S J.M.D. Knitwears through its proprietor Mr. Prince kumar	All that piece & Parcel with respect to Mortgage area 100 Sqyd having H	of resident No B-XXIV-	al property of 316 street No	Thousands Fou
having Business at St No 1, Jaiswal Colony, Kailash Nagar Ludhiana & Mr. Prince Kumar S/o Sh. Chaman Ial, R/A H No 816 St No. 5/2 Harcharan Nagar, Near Shingar Cinema Samrala Chowk, Ludhiana	saidan with Khasra No Page No 1683, hadbast r year 2007-2008. Bound	rict Ludhiana 947, Khata I no 172 as per ed by (as per South:- Stre	wakya Taraf No1301/1403, jamabandi for Site) North:- eet 20' Wide,	And Sixteen Paise Only) together with further interest and other charges thereon with effect
Kumar 50'	0, Situated at Ludhiana in	the name of P	rince Kumar	interest thereon.
2. Borrower/s:- Mr. Sukh Lal	All that piece & Parcel	05.04.2021	25.05.2022	Rs 2,51,560.56 /-

DATE: 30.05.2022 PLACE LUDHIANA AUTHORISED OFFICER

पंजाब नैशनल बैंक **प**punjab national bank 😓 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स 🗿 यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया | SASTRA Divison, 3rd Floor, East Wing,

ORDER OF THE COMMITTEE FOR IDENTIFICATION OF WILFUL DEFAULTERS PASSED IN PROCEEDINGS CONDUCTED AT SYNDICATED ROOM, HEAD OFFICE ON 08 03 2022

M/s RCC Infraventures Ltd. (Rs, 55.82 Cr.) CS: Agra /ZS: Agra Date of NPA: 31.03.2020)

In terms of RBI Master Circular no, DBR. Ne. CID, BC.22/20.16.003/15-16 dated July 01, 2015 a meeting of the Committee for Identification of Wilful Defaulters of the Bank was held on 09.11.2021. The Identification Committee concluded that events of wilful default in the Borrower's account (s) had Occurred and gave Its approval for issuance of Show Cause notice for identifying the following person(s) as wilful Defaulters:1) M/s RCC Infraventures Ltd. (Borrower)
2) Shri Ravi Kumar Jain (Director/Guarantor)
3) Shri Luv Jain (Director/Guarantor)
5) Shri Rajeev Jain (Director/Guarantor)
6) Miss. Nikit Jain (Guarantor)
7) M/s RCC Eco. Build Systems Ltd. (Guarantor)
8) M/s Vardhman Resorts Pvt. Ltd. (Guarantor)

Vide said Show Cause notice dated 15.11.2021, They were Informed, if they so desire Vide said Show Cause notice dated 15.11.2021, They were Informed, if they so desire, they can make a representation to the Bank within 15 days from receipt of notice, as to why they be not classified as willful defaulters. In Response to the Said SCN, Director(s)/Gurantor(s) Shri Ravi Kumar Jain, Shri Luv Jain, Shri Rajeev Jain, Smt. Neeru Jain, and Guarnator (s) Miss. Nikita Jain, M/s RCC Eco. Build Systems Ltd. Through its Director Shri Luv Jian and M/s Vardhman Resorts Pvt. Ltd. Through its Director Miss. Nikita Jain vide their Letter dated 01.12.2021 & 11.12.2021 Submitted their Reply based on the Representation Received it was decided to provide an opportunity of personal hearing to the above mentioned Director(s)/Guarantor(s)

The meeting identification Committee for personal hearing was held on 08,03,2022 The meeting identification Committee for personal meaning was near or near an and said meeting was attended by Shri Ravi Kumar Jain & Shri Luv Jain who appeared Personally and also on behalf of the Company and other related persons.

## ORDER OF THE COMMITTEE FOR IDENTIFICATION OF WILFUL DEFAULTERS:

The Identification Committee, headed by the Executive Director and consisting of other The identification Committee, neaded by the Executive Director and consisting of other members i.e. Chief General Manager and Dy. General Manager of the Bank, after considering the Overall Facts, the Material Available on record and also Hearing the Submission of Shri Ravi Kumar Jain, & Shri Luv Jain, the Committee decided to drop the wilful default proceedings against the borrower and its related persons mentioned at serial no.1 to 8.

The undersigned is the member of the Identification Committee constituted in consonance with the RBI directives and the Identification Committee has authorized the undersigned to send this **ORDER OF THE COMMITTEE FOR IDENTIFICATION** OF WILFUL DEFAULTERS under his signature

(NASIM AHAMAD)

Fullerton India Credit Company Limited
Corporate Office: Supreme Business Part, Floors 5-8-6, 8 Ming, Powal, Mumbs 400 075 ordina Corporate Office: Supreme Business Part, Floors 5.4, 6, 8 Ming, Portal Muritio 4
POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)
(Under Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

The understanded hains the authorized officer of Pullerton India Credit Con

Labb Fire Thousand Six Hundred Eight Six Only within 50 days from the date of recept of the salar older. The berrower(s) having failed to repay the amount, notice is benefit given to the borrower(s) and the public is general that undestigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under solar control of all of actions of all of actions with Place 6 of the South Protect (in Chicacoment Places). Could not him a discussion of the days of the property and any solar protect in the Chaips of Action that the property and solar solar protective of the solar protection of the day with the property and solar solar through the property and solar solar solar through the property and solar solar solar solar solar solar through the property and solar sol

FORM B

FORM B

PUBLIC ANNOUNCEMENT

[Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptey
Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016

FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF

DESTINATION TEXOFAB PRIVATE LIMITED

DESTINATION TEXOFAB PRIVATE LIMITED

PARTICULARS DETAILS
NAME OF CORPORATE DEBTOR Destination Texofab Private Limited 26/05/2022 of Corposot Botter

Winnes & Registration Number of Insolvatory

AButtam Prasad Singh

Roya, No. BBIDRA-0011P-0116142019-2020112914

ARROWS as Incl. Bard of Braigisters

Assess self-ensite of Braigisters

Assess self-ensite of Braigisters

Assess professed with the Board

Ensite and Ensite Assess (AS) 68 (1967) 1000192

Ensite and Ensite Assess (AS) 68 (1967) 1000192

Ensite and Ensite Assess (AS) 1000192

Ensite and Ensite Assess (AS) 1000192

Ensite and Ensity AS

En Email: atlutamisingh@gmail.com
Address: A78 & B UGF, Street No. 6,
Madhu Vihar, Delhi-110092;
Email: cindestination taxofata@gmail.com
25/06/2022
mpory Law Tribural New Delhi Bench-III) has order
joat Toxofata Provide I

Atjuttam Prasad Singh Liquidator of Destination Texofab Private Limited Regn. No: IBBI/IPA-001/IP-P01914/2019-2020/12914

# HARDWYN INDIA LIMITED red Office: 8-1.01, PHASE-1, MAYAPURI, MEW DELF Bel.011-28115382, 28114872,28114843 CIX L74990DL2017PLC324826 Email:Info@hardwyn.com, Wob: www.hardwyn.com

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2022

No.	Parlicujars	31,2022 (Audited)	31,2021 (Autilited)	31,2921 (UnsudHed)
		Yearly	Yearly	Quarterly
L	Total Income from Operations	848,310.96	560,573.00	230,982.2
2	Not Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptionalised/or Extraordinary Itemself)	47,180.56	21,234.88	13,149.7
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Ecceptional and/ or Extraordinary items#)	47,180.56	21,234.58	13,149.7
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tex (after Exceptional and/or Extraordinary Nermal)	34,071.99	15,384,12	9,809.9
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Losa) for the period (after tag) and Other Comprehensive	34,071.86	15,364.12	9,886.9
8.	Equity Share Capital	10,200.00	10,200.00	10,200.0
7.	Reserves (such ding Reveluation Reserve) as above in the Audited Bajance Sheet of the previous year		17,396.01	
8.	Emilings Per Share (of Rs. 10 /- sach) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: (in Rs) 2. Disabet for Rs)	3.34	1.51	0.9

TRITON CORP LIMITED CIN-L'74899DL1990PLC039989
Regd. Office: R-4 , Unit No-102, Ist Floor, Khirki Extension Main Road,
Mahiya Nagar, New Delhi-110017
Email: cs@tritoncorp.in, Phone: 011-49096562

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31,2022

Particulars	Quarte	r Ended	Year E	inded	Quarte	r Ended	Year	Ended
Particulars	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited) (	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
otal income from operations	-	- 5	-	-	-		-	-
Net Profit/(Loss) before tax and share of (Loss)/profit in associates & Joint ventures	(5.10)	(5.93)	(21,28)	(27.96)	(5.49)	(6.32)	(21.74)	(28.86)
Net Profit/(Loss) for the period after tax and exceptional items	(5.10)	(121.41)	(21.28)	(143.43)	(233.97)	(121.92)	(250.23)	(144.46)
fotal Comprehensive (loss) / Income for the period	(5.10)	(121.41)	(21.28)	(143.43)	(233.97)	(121.92)	(250.23)	(144.46)
Paid up Equity Capital (Face value of Re. 1/- each)	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90
Reserve excluding revaluation reserves(As per last audited Balance Sheet)			(923.35)	(902.08)			(1,913.70)	(1,663.48)
arning Per Share (of Rs.1/- each) (not annualised) Basic Diluted	(0.003)	(0.061)	(0.011)	(0.072) (0.072)	(0.117) (0.117)	(0.061)	(0.125) (0.125)	(0.072) (0.072)

- The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and financial year ended 31st March, 2022 filed with the Str Exchange under the Regulation 33 of the SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Audited Financial Results for the quarter a financial year ended 31st March, 2022 are available on the Stock Exchange Webstle (www.bscheida.com) and on the Company Webstle (www.trincorp.in).
- The above Standalone and Consolidated Financial Statement, prepared in accordance with Indian Accounting Statndards ("Ind AS") as prescribed under section 133 of the Companie Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

By the order of the Board For Triton Corp Limited Sd/ Meena Rastog (Chairperson) DIN:01572002

New Delhi







### U.P. State Industrial Development Authority UPSIDC Complex, A-1/4, Lakhanpur, Kanpur-208024

Notice for Public Objection / Suggestion on Part Layou Plan of Industrial Area Growth Centre Shahjahanpur by which Industrial Plot No. G-6, G-7, G-8, G-9 & H-38 has been amalgamated and created a new Plot No. G 6-9J-38 suring - 16060.00 Sq.m.).

(Nestating - Joseph Carlot) T (a) The Part Layout Plan of Industrial Area Growth Centre Shahjahanpur Plot No. G-6-9/H-38 of Uttar Pradesh State Industrial Development Authority (UPSIDA) situated in District Shahjahanpur has been prepared.

(b) A copy thereof will be available for inspection at the Regional Manager of the Uttar Pradesh State Industrial Development Authority, Bareilly between 10:00 am to 5:00 pm on all working days till the date mentioned in Para 3 hereafte as well as Website: www.onlineupsidc.com

2. Objections and Suggestions are hereby invited with respec of the Draft Layout/Amalgamation Plan.

3. Objections and suggestions are shall be sent in writing to 3. Objections and suggestures are state use set in in ming to the office of Regional Manager UPSIDA at Bareilly within 15 days from the date of publication of this notice mentioning subject as "Regarding Public Objection / Suggestion on Draft Layout / Amalgamation Plan for Industrial Area Growth Centre Shahjahanpur Plot No. G-6, G-7, G-8, G-9, & H-38. Any person making the Objections or Suggestions should also give his / her full name & address, Email id and nber. (Regional Manager)
U.P. State Industrial Development Authority contact number

# HARDWYN INDIA LIMITED

MTICO: B-101, PHASE-1, MAYAPURI, NEW D Tel.011-28115352,28114972,28114843 CIN: L74990012017PIC324828

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2022

SL No	Particulare	March 31,2822 (Andited)	March 31,2021 (Audited)	December 31,2021 (Ununified)
		Yearly	Yearly	Quarterly
1.	Total Income from Operations	848,310.96	580,573.00	230,582.29
2.	Net Profit / (Loas) for the period (before Tex, Exceptions)and/or Extraordinary (ternsif)	47,180.56	21,234.56	13,149.79
3.	Net Profit / (Lose) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary Normal)	47,180.56	21,234.58	13,149.79
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tex (after Exceptional and/or Extraordisary itemsif)	34,071,99	15,384,12	9,889.96
5.	Tetal Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (effective) and Other Comprehensive	34,071.99	15,364.12	9,859.96
6.	Equity Share Capital	10,200.00	10,200.00	10,200.00
7.	Reserves (aucluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balanca Shoot of the prodous year		17,396.01	
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each) (for continuing and discontinued operations) - 1, Bysic (in Rs) 2. Diluted: (in Rs)	3.34	1.51	0.97

- we is an extract of the detailed format of Quarteely/Annual Financial Results. Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Letting and Other re Requirements) Regulations, 2015. Section set profit / Jose, total comprehensive income or any other relevant It havnig) due to change(e) in eccounting policies shall be disclosed by mas

# नियुक्तियां



क्ष्मीबाई महाविद्यालय LAKSHMIBAI COLLEGE ् (दिल्ली विक्वविद्यालय University of Delhi) अयोक विद्यार Ashok Vihar–III, दिल्ली Delhi-110052 दूरभाष नं. Phone No.: 011-27308598

ाक्तपान सर्वाण स्टब्बांसा - विकास विकास स्थाप्त (01,002) विशेष : 25,05,3022 अर्थ उमीहवारों से कालेज में 7 में बैनन आयोग में मैड्रिक्स से वीधियत से नेतनस्था 10 में सहास्थ्र में प्राप्त के प्रदार पतार्थी निमृत्यित के लिये बैक- लिया <u>के प्राप्त प्रदार के प्रदार पतार्थी निमृत्यित के लिये के लिया के प्राप्त कर नेता कि ती के जाने हैं। आवेशन प्राप्त करने अर्थान की निमित्र में प्राप्त कर में अर्थान निम्न की किता प्राप्त करने अर्थान निम्म की निम्म कालिया प्राप्त करने अर्थान निम्म की निम्म हिंदी की निम्म कि निम्म की निम्म हिंदी की निम्म की </u> विनांक : 25,05,2021

नकर, भा ना नाल में ठा, ठा । यसपुरा विवास के एस, कुपेबा महाविद्यास |akshmshaicollege.in देखें। कोई भी अनुरोग / युद्धिपत्र को केवल महाविद्यालय की वेशसाइट पर ही प्रकाशि

प्राचा महत्वपूर्ण सूचना : इस विशापन के साथ योग्यता, प्रकाशन, अनुभव, स्क्रीनिग दिशानिदेश अं साकेतिक प्रथत आदि विवरण महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र भरने सांकेतिक प्रपत्र आदि विवरण महाविद्द पहले इन विवरणों को सावधानी से पढ़े।

## OSBI

भारतीय स्टेट बैंक केन्द्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग, कॉर्पोरेट सेन्टर, मुंबई फोन: 022-22820427; फैक्स: 022-22820411

अनु क्र.	पद	रिकियाँ	श्रेणी	विज्ञापन सं.
1.	जोखिम विशेषज्ञ-वेत्र	5	एमएमशीएस- ॥	
2.	जोखिम विशेषज्ञ-क्षेत्र	2		CRPD/SCO/
3.	जोखिम विशेषज्ञ - क्रेडिट रिस्क	1		2022-23/10
4.	जोखिम विशेषज्ञ-सलाइमेट रिस्क	1	एमएमजीएस-	
5.	जोखिम विशेषज्ञ-आईएनढी एएस	3	88	
6.	जोखिम विशेषज्ञ-मार्केट रिस्क	2		

पाजता मानदंड (आयु. अनुभव, नौकरी प्रोफाइल आदि), अपेक्षित शुल्क और अन्य विवरण वे लिए. ऑनलाइन आवेदन जमा करने के साथ-साथ ऑनलाइन भुनतान के लिए एक लिंक वे साथ बैंक की वेबसाइट https://bank.sbi/web/careers पर लॉग ऑन करें. आवेद करने और सुल्क जमा करने से पहले पात्रता और अन्य विवरण सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत विज्ञापन देखें.

ऑनलाइन आबेदन और शुल्क के भुगतान की तिथि: 27.05.2022 से 16.06.2022 तक किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया हमें "CONTACT US" -- "Post Your Query" लिंक के ाध्यम से लिखें जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है

दिनांक: 27.05.2022

-

# पंजाब नैशनल बैंक

मण्डल सस्त्रा केन्द्र, गुरुग्राम, प्लॉट नं. 5, सैक्टर-32, इन्सटीट्यूशनल एरिया, गुडगाँव

अस्मित क्षांत्रिकार के स्वाप्त के स्वर्ण के स्वर्ण प्रमुखना किया जिल्ला के स्वर्ण के

हिं। का भुगतान करन म अध्यक्त । समें नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कम्बा, उक्त अखिनयम की न्नेज्यात्व के अन्तमूर्त निम्निसिबित दिनांकों को से सिया है।

तदा शर्तिकारों के इस्तेराक में अपनार **मिन्डिमिक्त** दिनोकि को है सिया **हैं।** प्रात्तकार्तिकों की शिक्षा के को पर बेलेशाता की दिनाकि कर विश्वास में दि वाती है कि वे निम्न सम्परियों के संघ्य लेक्-देन न करें हथा सम्पर्ध तथा कोई में लेक्-देन प्रेवाद मैनकार बैंक, के प्रभार वाली सकाय पति के कोनि होगा। सहस्वतिकार्तिकार काम पहल्ल की प्रथा 1 को जिस्सा की पति को कोरिन सुनिविद्य परिचारीयों के मुख्य सबसे होतु व्यवका समय सीमा व

खाते का नाम	मीन सूमना की तारीख कब्जा सूचना की तारीख		बकाया राशि (क. में)
शाखाः हैली मंडी श्री विनेश पत्र श्री जियान सिंह (जवारकर्ता).			
आ वन व पुत्र श्री (ज्यान सिंह (व्यायक्ता), निवासी मकान नं. 120/ह, शिव कॉलोनी, एक्सीआई गोवाम के सामने, हेली मंकी, तह-पटौदी, युक्याम (हरियाणा) 122503	25-05-2022	मोदान के विपरीत, हैली मंडी, तह-पटौदी, पुरुपाम (हरियाण) 122603 (शामिल खेरत / खाता नं. 886/538, एमयू./किला नं. 131//7/2. 4-9 तहाडी 04 कनात 00 मरता बिक्री विलेख संख्या 3323 दिनांक 31. 122013 के अनुसार)	श्वविष्य का ब्याज और अन्य प्रशार इत्यादि सरित
दिनांक : 25.05.2022, स्थान : हैसी मण्य	ft	प्राधिकृत आं	बेकारी, पंजाब नैशनल बैंक

CCL INTERNATIONAL LIMITED

CBI-12894001.9919/LC044820

REGD.OFF.: M-4, GUPTA TOWER, B 111, COMMERCIAL COMPLEX, AZADPLIR, NEW-DELHI-110 033

				Standalone		
8.	Particulare		Auarter Endec		Year	Ended
No.		31.03.2022 (Audited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2021 (Audited)
1.	Total income from operations	1,681.88	533.29	1,349.98	2,778.68	3,043.74
2	Net Prolit (loss) for the period (before Tax, exceptional and extraordinary items)	257.62	(78.30)	98.15	58.25	84.71
3.	Net Profit/ (loss) for the period before Tax (after exceptional and extraordinary items)	257.62	(78.30)	98.15	58.25	84.71
4	Net Profit/ (loss) for the period after Tex (after exceptional and extraordinary items)	250.23	(75.83)	77.66	56.91	47.74
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss) for the period (after text) and Other Comprehensive Income (after (ext))	250,23	(75.83)	77.68	58.91	47,74
6	Paid up equity share capital (face value Rs. 10/- each)	1,919.26	1,919,26	1,919.26	1,919.26	1,919.26
7	Reserves (excluding revaluation reserve)			-	2,727.96	2,671.05
8	Basic and Diluted Earning Per Share (Rs.) (not annualized)					
	-EPS before exceptional item	1.30	(0.40)	0.40	0.30	0.25
	-EPS after exceptional item	1,30	(0,40)	0,40	0,30	0,25

- The above mastits have been reviewed Autilt committee of their meeting held on May 30, 2022 and thereafter appr Board of Directors at their meeting held on May 30, 2022.

  The Preschiewab have been progrand in accordance with held AS as prescribed under Saction 133 of the Commod 2013 result with higher in light between or in terms of Regulation 33 of Securities and Exchange Board of In (Lating Obligations and Disclosura Regulatments, 2015.

  The entire operations of the company relatis to two segments wit Trading & Construction. Hence, segment reporting AS 10th results.
- AS 10 fe in mark.

  The Company has considered historical and certain adermal sources of information hobbling economic forecasts and industry report up to the date of agrowed of the financial reside in deformining the impact of vactors described in financial reside in deformining the impact of vactors described in financial resides in deformining the impact of vactors are described in the company to the company between the principle of prosterior in applying platiprimers, estimates and insecurities and based on the company. The company has the company in the company that of investments and other Assault of the company. The extension of the property of the global highly independent on the date of approved of vertical common of the property of the global highly independent on the certain of the date of approved of vertical formation of vertical property of the property
- eventual columner of imparts, the Company will continue to morning developments to identify significant uncertainties in future periods, if any few products are continued to morning developments to identify significant uncertainties in future periods, if any figures for the product year have been re-emerged wherever necessary, in line with the current period presentation. The above is an extract of cells defined from the continual Financial Beautist for the Quarter orded \$1.03.2022 lied with this Stock Exchanges under Seption 50 of the SEQ [Listing and Other Cellschaut Requirements) (Seguistions, 50.5). The full format of the safet financial Results in wailable on the exchanges under some content of the Stock Exchanges at wew. Instinction can and on the websites of the Stock Exchange at www. Instinction.com and on the websites of the Stock Exchange at www. Instinction.com and on the websites of the Stock Exchange at www. Instinction.com and on the websites of the Stock Exchange at www. Instinction.com and on the websites of the Stock Exchange at www. Instinction.com and on the websites of the Stock Exchange at www. Instinction.com and on the websites of the Stock Exchange at www. Instinction.com and on the websites of the Stock Exchange at www. Instinction.com and on the websites of the Stock Exchange at www. Instinction.com and on the websites of the Stock Exchange at www. Instinction.com and on the websites of the Stock Exchange at www. Instinction.com and on the websites of the Stock Exchange at www. Instinction.com and on the websites of the Stock Exchange at www. Instinction.com and on the websites of the Stock Exchange at www. Instinction.com and on the websites of the Stock Exchange at www. Instinction.com and on the websites of the Stock Exchange at which the Stock Exchange at which is the Stock Exchange at which the Stock Exchange at which is the Stock Exchange at the Stock Exchan

For and behalf of Board of Direct CCL International Umi

Date: 30th Day of May 2022 Place: New Delhi

SdSdAkash Gupta
Director
DIN: 01940481

# Kohinoor Foods Ltd.

Regd./Corporate Office: Pinnacle Business Tower, 10" Floor, Shooting Range Road, raj Kund, Faridabad, Haryana-121001, Ph. No. 0129-4242222, Fax No. 0129-4242233 E-Mail: info@kohimoorfoods.in, Visit us at: www.kohimoorfoods.in CIN - L52110HR1989PLC070351

				(F	Rupees in La	khs except	earnings per	Share Data
				Standalor	10		Conso	lidated
5. No.	Particulars		Quarter ender	1	Year	ended	Year	ended
	Tuttodats	31.03.2022 (Audited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2021 (Audited)
	Total Income from Operations (net)	4472	2278	1861	10348	4435	10348	26988
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	147	41	-844	-529	-1179	-530	1594
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	125	41	9	-551	-326	-552	2471
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	45	41	-180	-630	-515	-632	2423
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	56	41	-175	-619	-510	-620	2428
6	Equity Share Capital (face value of Rs. 1(V-each)	3707	3707	3707	3707	3707	3707	3707
7	Earnings Per Share (of Rs. 10'- each) 1. Basic: 2. Diluted:	0.15 0.15	0.11 0.11	-0.47 -0.47	-1.67 -1.67	-1.38 -1.38	-1.67 -1.67	6.55 6.55

ote: The dover a ministrat of the detailed format of Country's and Year Endode Francis Results lifed with the Stock Schranges and search graphs and Year Endode Francis Results lifed with the Stock Schranges and search graphs and Stock Schranges and Schra

For Kohinoor Foods Ltd.

JAUSS POLYMERS LIMITED

CIN: L74599HR1987PI\_C094045

Registered Office: Plot No. 51, Roz X a Meo Industrial Area, Sohna, Distit. Gurugram 122103

iite: www.jaasspolymers.com, E-mail: response@jaasspolymers.com Tele. No.: 120-7195238-239

EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

			Standalone		Consc	lidated
	Particulars	Quarter Ended 31.03.2022 (audited)	Quarter Ended 31.12.2021 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2021 (Audited)	Year Ended 31.03.2022 (Audited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)
1	Total Income from operations	- 8	. 353	207.67		728.34
2	Net Profit from ordinary activities after tax	(4.05)	(5.32)	(125.85)	(25.06)	(174.97)
3	Net Profit for the period after tax (after Extraordinary items)	(4.05)	(5.32)	(125.85)	(25.06)	(174.97)
4	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(4.05)	(5.32)	(125.85)	(25.06)	(174.97)
5	Equity paid up share capital	462.56	462.56	462.56	462.56	462.56
6	Earnings per share (per share in ₹ ) (Quarterly not annualised) :					
	Basic (₹)	(0:09)	(0.11)	(2.72)	(0.54)	(3.78)
	Diluted (₹)	(0.09)	(0.11)	(2.70)	(0.54)	(3.75)

- The above Audited consolidated results were reviewed and recommended by the Audit Committee & approv by the Board of Directors at their respective meetings held on 30th May, 2022.
- by the Board of Directors at their respective meetings held on 30th May 2002.

  The above is an extract of the default of Found of Standardow and Crossifishated Financial Reputs for the Quarto and Your ended March 31, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Utiling and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the autital of Francia Results are an available on the Stock Exchanges exhelits, when Seeinfall a com and on the company avisible way uplaysport just so profit of the Company avisible way uplaysport just so company avisible way uplaysport just so company avisible way the just popular so.

Place: Noida Date: 30.05.2022

K satish Rai Managing Directo



सिबली इंडस्ट्रीज निमिटेड पंजी० कार्यांत्रयः पवनपुर्वे, मुयदनगर, जिला गाजियाबाद (यू.पी.) CIN - L17111UP1988PLC009594 वेबसाइटः www.sybly.com, जोन्न 0232-261521, है-मेलः sybly@rediffmail. 31 गार्च 2022 को सम्मुच विमाठी/बार्षिक के लिए एकल लेखापरीक्षित विशीध प्रराममी का विवरण (एन केंचावर्गिक केंचावर्गिक केंचावर्गिक व्यक्त अग्रय 266.29 बुद्ध लाग/(क्षांगि) अवधि केंबु (अयवाद मद लया कर शे पूर्व ) -37.63 बुद्ध लाग/(क्षांगि) अवधि केंबु तथा कर पूर्व (क्षयवाद मद कें घरणार्थ) थ परमात) कुद्ध लाम/(हानि) अवधि हेतु (कर परमात तथा अपवाद मद से परमाता -55,13 -44,26 109.82 मद से परवात) अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु कर पश्चात लाम /हानि शामिल करके तथा कर पश्चात अन्य व्यापक आय) प्रदत्त हक्किटी तेयर पूंजी ( र 10/- का अंकित मूल्य) 915.66 915.66 अन्य इक्तिही अन्य इक्तिही प्रति अंत्र अग्व ( र 10/- प्रत्येक) शतत तथा असतत कार्य संचालन हेतु) (व) गुत्वमूव (प्रज्ञ 1.20 1.20

टेप्पणियों – . उपरोक्क लेखापरिक्षित तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम जैसा कि अंकेक्षण कार्य समिति द्वारा समीक्षित किए नए हैं उच्चा तिथि 30.05.2022 में आयोजित कम्पनी की बैठक में निर्देशक मंडल द्वारा मान्यता प्राप्त थे सामियिक लेखा परीक्षकों ने एक अवतिबन्धित एवं विवृत्त लेखापरीक्षा राय अपनी सीमित समीक्षा रिपोर्ट द्वारा व्यवस

प्रशासिक परिचार करता प्रस्तिक विभिन्न सोर्स और इंडिसा (सुवीस्त्रता दाहिस्तो तथा प्रस्तिक प्रधा प्रधा

हैं0 (महेंदा चन्द मिलल) प्रबंध निदेशक विन : 00284866



# Zara Aavaas-3

Applications are invited from general public for booking Residential Apartments in the Atfordable Housin, project proposed to be developed as per terms & conditions prescribed by the Town & Country plannin, fepartment, Govi. of Harynaav die notification no PE-27/48821 dated 19/08/2013.

Project Approvals	Colonizer: Perfect Buildwell Pvt. Ltd. Licenso No. 72 of 2019, dated 92.07.19, Building Plan Approved vide memo no: ZP-1005/SD(0K)/2021/15532 dated 01.07.2021 RENA No. 32 of 2021						
Location	Sector 104, Dwarka Expressway, Gurugram						
Provisions	143 Apartments out of 316 in 2.28125 acres						
Facilities	One Community Hall of 2027 sq.ft. and one Anganwadi-cum-Creche of 2072 sq.ft.						
Apartment details (inclusive of two wheeler parking)	Category		Balcony area in sq.ft. (approx)			Booking Amount (5%)	On Alletmer (20%)
	2BHK-(Type B) 3BHK-(Type A)	581.380 643.364	100.923 92.580	135 8	25,41,796/- 27,94,709/-	1,22,089.80 1,35,106.44	5,08,359.2 5,58,942/-

Spoking Amount 5's of the total cost of the flat along with the application farm. Additional 20% of the flat along with the application farm. Additional 20% of the flat amount is ke equal monthly installments as per construction work. No interests that If a due before the due date of payment. Any default in payment shall milk, indeed at the read of 15% per annum on the delayariporiod.

- Type of Construction- RCC Framed Earthquake resistance structure designed in Zone and as per IS Codes Internal Finishing- All walls finished in OBD of pleasing shades.
- External Finish-Texture paint in pleasing shades.
- Flooring Sed/Living/Dinning room vitified tile flooring Kitchen/Bathroom/ Balconies Antiskid Caramic tile Flooring Electrical Copper Wiring concealed PVC Conducts Provision of TV/Telephone outlets in all rooms.
- Water Supply- 24 hours Water Supply
  Well designed complex with beautiful landscape garden

Adequate power backup for essential services PFPLCATION TIMELINES: Applications will be filled online on http://ediraw.topharyana.gov/intop-dms/home starting-from 15.05.2022 at 00.00 and closing date is 2006.9202 at 11.59. Payment opening date is 15.05.2022 at 00.00 and Psyment closing date is 18.05.2022 date.

ELIGIBILITY:

LIGIBILITY:

The applicant should not be debarred from entering into legally binding contract under any prevailing law.

Any person can apply, however, the PMAY beneficiaries

which include their spouse or dependent children, identified by the Uhran Lecal Bodies Department. Haryana under Physhan Martin Airax Soya-Boussia for Air programs shall be granted preference in allotment. First printify shall be years to the certain the seat forward to invest the seat forward the seat forward to invest the seat forward to inv

allotment of flats.

Any applicant can make only one application. Any special can make only one application. Any applicant can make only one application. Any successful applicant or design other flat under this policy in any other colony. In case, height is successful in more flat on colony. In case, height is successful in more flat on colony, he she will have choice of retaining only one flat.

LICOMENT CRITERIA:

The platiment of apartments shall be done through online draw in the presence of Conventies consisting Denny Commissioner or his representative in least of the extent of Haryana. Civil Servicesy. Sentior Town Planner (Circe Office), 1970 of the concerned District and the representative of concerned colorizer. After fination of date for crolline draw, an adversament shall be issued by the Developer Informing the applicant about the official criteria and venue of the orient down in the crowdless of the control of the developer informing the applicant about the official criteria and time frame to be adopted for soundly and alforment. The applicant are shall be adopted for soundly and alforment, the applicant any also refer to the details in the afterdable housing policy 2013 reddied by No. PF-274622 dated 19.8.2.2013 (available at the Degartment webside i.e., www.tcpharyana.gov.in)



Regd. Office: D-64, Defence Colony, New Delhi-110024 Branch Office: 2nd Floor, E-597, Greater Kailash-II, New Delhi-110048, Phone: 011-40641100-88, E-mail: guneel@zaragroup.in www.zaragroup.in



# **NEWGEN SOFTWARE TECHNOLOGIES LIMITED**

CIN: L72200DL1992PLC049074

Regd. Office: A-6, Salssang Vihar Marg. Guteb Institutional Area.
belth = 11067, Tot: +91-11-40770100, 26963571, Fac: +91-11-28565
Vebsile: https://newgensoft.com/, E-mail: Investors@newgensoft.com

वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और ई-वोटिंग सूचना का नोटिस

30 वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और ई—वोटिंग सूचना का नीटिंस स्थान विकास के स्थान विकास के स्थान के अपने हैं कि स्थान के अपने हैं कि स्थान के अपने हैं कि स्थान के अपने अपने अप

हस्ता /-जमन मौर्या कंपनी सचिव

www.readher@com















